

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 614]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2014—पौष 1, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1591.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बैतूल, जिला बैतूल के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)	
1	नगरपालिका परिषद्, बैतूल, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	अलकेश आर्य	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सावन्या शेषकर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति सुनीता रोशन मोरले	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति शशीबाई बसतीराम वाडिवा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	दुर्गा सोनू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	महेश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	ममता (अंजुल) भट्ट	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	मंगू (रजनीश) सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	नगरपालिका परिषद्, बैतूल, जिला बैतूल.	पार्षद	8	आठ	सायरा कदीर खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	उषा शैलेश्वर राव गायकवाड़	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मीरा चड़ोकार	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कैलाश बण्डु धोटे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति रेखा नरेश जावलकर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	ममता महेश राठौर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	निशांत वर्मा	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीता माधोराव देशमुख	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	गीतेश बारस्कर	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	ममता, मूलचंद यादव	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	पवन यादव	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति नीता साहू	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	जमुना पंढरी पंडागरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	अब्दुल सादिक मंसुरी	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	पंकज (गोलू बतरा)	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	दिनेश शेषकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	राजेन्द्र सिंह (केन्दूबाबा) चौहान	निर्दलीय
26		पार्षद	25	पच्चीस	पुष्पा नागले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	हेमलता ओमप्रकाश मालवी	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	सुनीता बाबू भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	विद्या ओमप्रकाश जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	दिलीप सतीजा (भाप्पा)	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	विशाल S/o फुलसू धुर्वे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32		पार्षद	31	इकतीस	शशिकांत (पिन्डू महाले)	निर्दलीय
33		पार्षद	32	बत्तीस	रविन्द्र (रवि ओमकार)	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	आनन्द हरिराम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1592.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, आमला, जिला बैतूल के माह दिसम्बर 2014

में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
1	नगरपालिका परिषद्, आमला, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	लाजवंती अशोक नागले	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	संजय सिंग	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	संजय दशरथ राठौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुरेखा पंढरी वराठे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अंजनी बाई मगरदे	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	नरगीस शब्बीर शाह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	सुल्ताना बानो	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	बसंत ओडुकले	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	राकेश धामोडे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुषमा राहूल धेंडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	शैलेन्द्र खातरकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	ओमवती विश्वकर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	राजेश अमरोही	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रत्नमाला गोपाल खतारे	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	संगीता किशोर माथनकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सरस्वती बचले	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	प्रभा चिरोंजी पटेल	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	शोभा प्रकाश देशमुख	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	लिखीराम साहू	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1593.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बैतूल बाजार, जिला बैतूल के माह दिसम्बर 2014

में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बैतूल बाजार, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	सुधाकर पवार	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	बारीकराम पिता चिट्ठू	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सावी वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	मयंक वर्मा	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	निलेश कामतकर	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	दीपिका वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नीतू सुनील पवार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	त्रिनंती विलास सायरे	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सुनील पवार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुनील बनकर	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	संध्या पवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	योगिता पवार	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सुभाष व. घुड्डु राठौर	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुनीता पति राजु राठौर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	कपिल पंडिया	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुरेश गायकवाड	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1594.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, मुलताई, जिला बैतूल के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, मुलताई, जिला बैतूल.	अध्यक्ष	-	-	हेमंत (मिन्दु) शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रवण कुमार नागले	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगरपालिका परिषद्, मुलताई, जिला बैतूल.	पार्षद	2	दो	श्रीमती निशा गोस्वामी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	उमेश	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	बेले निर्मला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति बरखा विजय पठाडे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	सुन्दरलाल उर्फ राजू चोपडे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	अरुण साहू	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	हनी सरदार उर्फ कुलवंत	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	शीतल संतोष साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	मनोज सेवतकर	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	बटनीबाई कडवे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	सुमन शिवकुमार माहोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मनीष शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	भिवजी पवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखा राजेन्द्र शिवहरे	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1595.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	राजीव कुमार जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	दिनेश कुमार मालवीया	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सुरेश गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	प्रमिला प्रदीप मंडलोई	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	ललिता राजेश पुर्विया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	5	पांच	परवीन बानो	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मीना राकेश पगारे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	छगनलाल S/o श्री बाबूलाल	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	उर्मिला देवी उर्फ उमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	संतोष कुमार परते	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	हरीश कमार बेमन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	ब्रजेश दुबे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	उमा राजा सोनी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रेखा राजू सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	राजेन्द्र उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति प्रभा साहू	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	कैलाश चौरसिया	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	मनोज माहेश्वरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अट्ठारह	रज्जाक खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	किशोर डाबर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	श्रीमति प्रेमबाई साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	सुजाता दिनेश राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1596.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	अखिलेश खण्डेलवाल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	शिल्पा तेज कुमार गौर	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	निशा राघवेन्द्र दुबे	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	3	तीन	नवीन कुमार (दीपू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	प्रेमनारायण	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	दीपिका राठौर	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	तारा रवि मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	श्रीमति ज्योति राजेश रैकवार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	विवेक श्रीवास्तव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	अभय वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सरजू	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	जमना	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	जितेन्द्र कुमार तिवारी "जीतू"	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अतुल भंडारी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पंकज पाण्डे	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रकाश शर्मा उर्फ (श्री)	निर्दलीय
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति पूजा अजय शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	महेन्द्र यादव	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	प्रवीण यादव "पप्पू"	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	जीजी बाई आसरे	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	पवन	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	मुकेश पटैल	निर्दलीय
23		पार्षद	22	बाईस	शर्मिला गौर	निर्दलीय
24		पार्षद	23	तेईस	सुनील कुमार चौधरी	निर्दलीय
25		पार्षद	24	चौबीस	अशोक कुशराम मुट्टा	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमती राधाबाई अशोक कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
27		पार्षद	26	छब्बीस	कृष्णा तपेश गौर	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	रंजना माझी (गुड़िया)	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	सुशीला चौकसे	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	अजय रतनानी	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	इमरत लाल (मुन्ना ग्वाला)	निर्दलीय
32		पार्षद	31	इकतीस	शीला गोरी यादव	निर्दलीय
33		पार्षद	32	बत्तीस	परवीण वेग	निर्दलीय
34		पार्षद	33	तैंतीस	लोकेश गोगले श्री गोपाल प्रसाद गोगले	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1597.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, इटारसी, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद्, इटारसी, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	सुधा राजेन्द्र अग्रवाल (राजू कक्का)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति शशि नरेश चौहान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	अरुण चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति दुर्गा ठाकुर w/o श्री नारायण सिंह ठाकुर.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	भागेश्वरी (काकी) शिवकिशोर रावत	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	अरविन्द चन्द्रवंशी (मोनी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति शारदा बामने w/o ब्रजेश बामने	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	महेन्द्र चौधरी (सुररु भैया)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	प्रियंका बसंत चौहान	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	राजकुमार यादव (बड्डे भाईया)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अनवर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती नदां सोनकर	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति अनिता रजनीकांत सोनकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	कुलदीप रावत	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अमृता मनीष ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती रेखा प्रदीप मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	भरत वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	मनोज (गुड्डू) गुप्ता	निर्दलीय
19		पार्षद	18	अठारह	कुलदीप चावला	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमती मंजू किशनलाल मालवीया	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	श्रीमती ममता कौर	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमती मधु बड़कुर	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	जसवीरसिंह छाबड़ा (पप्पू भाई)	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेईस	गीता देवेन्द्र पटैल (दीपू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	निजामुद्दीन (बाबाभाई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमति मंजू कमल आर्य	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	नगरपालिका परिषद्, इटारसी, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	26	छब्बीस	महेश आर्य	निर्दलीय
28		पार्षद	27	सत्ताईस	“राकेश जाधव”	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	संजय चौधरी “भाऊ”	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	तुलसा वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
31		पार्षद	30	तीस	श्रीमति संगीता आशीष मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	दिव्या बस्तवार	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	यज्ञदत्त “लालू” गौर	भारतीय जनता पार्टी
34		पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमति सरोज उडके	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौंतीस	अभिषेक कनोजिया	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1598—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)	
1	नगरपालिका परिषद्, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	- -	कल्पना पति देवीदयाल यादव	भारतीय जनता पार्टी	
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति अखिलेश चौकसे	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	मालती गौर	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	दीपिका नरेन्द्र रघुवंशी	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	किशोर भाई दरबार बैड वाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	राजेस सोनी (अन्नू काका)	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति सुनीता कैलाश लौवंशी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	ऊषा शम्भूदयाल सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	मुकेश मन्सोरिया उर्फ नटराज	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगरपालिका परिषद्, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	9	नौ	अभिषेक शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	सुरेश कुमार उइके उर्फ दुग्गी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	पं. श्याम मोहन शुक्ला	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	मोहम्मद इल्यास गौरी हाजी मो. इसहाक गौरी.	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	फेमिदा बी पति शेख इसराइल (रानी)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	नितिन गुहा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती रमेन्द्र राव राजा बुंदेला	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1599—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	संतोष मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	जगदीश पिता गोकल प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	मोहन कहार उर्फ छोटे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती लक्ष्मी बाई पति पवन कुमार चौधरी.	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	राकेश चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	शकीला जमील खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	अजीज पहलवान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मिश्रीलाल साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	ताराबाई जगदीश प्रसाद कसेरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	नगर परिषद्, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	9	नौ	यशवंत पटेल (बबलू)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	पॉल साहब	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	'भाग्यश्री मनोज गोलानी'	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	(पुष्पा रविशंकर सराठे)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति रंजु धरमदास बेलवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	रामकिशोर 'काका'	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमति राजकुमारी देवकरण साहू	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1600—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बाबई, जिला होशंगाबाद के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बाबई, जिला होशंगाबाद.	अध्यक्ष	-	-	ओम प्रकाश उपाध्याय (ओम भैया)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	विनोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	रामवती/ भगवानप्रसाद	भारती राष्ट्रीय कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	राधेलाल यादव	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति ममता नरेन्द्र सिंह सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	आजाद खां	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	जगदीश शर्मा (पंडित जी)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	भगवान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	सुमन बाई प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	सुरेन्द्र मालवीय (शिल्लू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	विष्णु (छुट्टा) कहार	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	नगर परिषद्, बाबई, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमति गोपी वर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	महेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नाजनीन बी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति दीपाली विजय अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	गरिमा पति देवेन्द्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1601.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, जिला विदिशा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, जिला विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	उर्मिला रमेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	ज्योति पप्पू साहू	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	सचिन शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	राम स्वरूप (राणा)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	शबाना बी नदीम खां	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	नूर अय्यूब अली राना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	अम्बर जहां भैय्यन	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	मिलिन्द कुमार (बाड़ा भैय्या)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	मोहम्मद खालिद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	जय नारायण सेन	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	संतोष रघुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मनीष जैन (डब्लू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	रिंकू यादव	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सुरेश त्यागी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	बेजंती मनमोहन साहू	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, जिला विदिशा.	पार्षद	15	पन्द्रह	माजिदा बी इकराम	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	अंजनी तोषमनी पंथी	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	रानी देवी विनोद डाक्टर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19		पार्षद	18	अट्ठारह	शाहिदा शफीक (भूरा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	संजीव साईनाथ	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	परवीन मोहम्मद मियां	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	कमला बाई अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1602.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, गंजबासोदा, जिला विदिशा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, गंजबासौदा, जिला विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	-	मधुलिका राजेन्द्र (रज्जन) अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	उमराव रैकवार "बल्ला"	निर्दलीय	
3		पार्षद	2	दो	मंजु कुशवाह एडवोकेट	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
4		पार्षद	3	तीन	"पिंकी दीपक शर्मा"	निर्दलीय	
5		पार्षद	4	चार	मदनलाल अहिरवार	भारतीय जनता पार्टी	
6		पार्षद	5	पांच	"शशि राहुल ठाकुर"	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
7		पार्षद	6	छः	अंजली पृथ्वीसिंह रघुवंशी	निर्दलीय	
8		पार्षद	7	सात	रानी वीरेन्द्र लोधी	भारतीय जनता पार्टी	
9		पार्षद	8	आठ	ठा. जशवंतसिंह दाँगी (राजू ठाकुर)	भारतीय जनता पार्टी	
10		पार्षद	9	नौ	जितेन्द्र बाल्मीकि	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
11		पार्षद	10	दस	दुर्गेश देवीराम (छुटकल)	इंडियन नेशनल कांग्रेस	
12		पार्षद	11	ग्यारह	योगेन्द्र समैया "पप्पू"	भारतीय जनता पार्टी	
13		पार्षद	12	बारह	कपिल शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	
14		पार्षद	13	तेरह	नत्थूसिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगरपालिका परिषद्, गंजबसौदा, जिला विदिशा.	पार्षद	14	चौदह	अमरीश विलगैया	निर्दलीय
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखा विनोद मलैया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	विजय यादव (बी. बाबू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18		पार्षद	17	सत्रह	सुनील यादव	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	अतुल नेमा	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	शवाना/ इरशाद मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	ममता कमलिसंह नरवरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	शकुंतला भीमसिंह राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23		पार्षद	22	बाईस	शहनाज कुरैशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	रामवती नन्लाल छारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	प्रकाश जैन	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1603.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा.	अध्यक्ष	-	मीराबाई सक्सैना	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	श्रीमति सीता दैवी ठाकरे w/o रन्धीर ठाकरे.	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	कमर लाल	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	नफीसा बी इकबाल भाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	श्रीमति मुन्नीबाई/राम प्रीत राम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	कोमल ठाकरे पुत्र तोरन सिंह ठाकरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः श्रीमति रानू साहू	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात श्री शिवचरण प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ श्रीमति सुनीता मनोज अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ गुन्जा पत्नि रुपेश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस संतोष कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह गिरजा प्रसाद शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह सुमंत्रा बाई-भरोसा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा.	पार्षद	13	तेरह	जमील खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति कमर बाई/रामनारायण धाकड़	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	हनीफ खॉ	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1604.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कुरवाई जिला विदिशा.	अध्यक्ष	-	-	हसरुद्दीन खान (हसरु भाई)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	श्रीमति शाहीन अय्युब खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	मुन्ने खां हुसैनी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुनीता पंथी	बहुजन समाज पार्टी
5		पार्षद	4	चार	लाल मियाँ (लालू पेन्टर)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	तसलीम मो. जफर	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	“साबिर अली एडव्होकेट”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	मोहम्मद इरफान काजी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	प्रानचंद सप्रे (पी.सी.)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रूबीना सरवर पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	विनीता संतोष प्रजापति	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	नीतू राजकुमार यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	मंजू/ शिखरचंद जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रहीम भाई फोटोग्राफर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	लईक खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अंशिता अभिषेक सप्रे	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.